



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 16 जनवरी, 2024
(26 पौष, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30) (केवल हिन्दी में)	13
भाग—II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 4 / पं०अ० IV / 1872 / धा० 39—क / 2024, दिनांक 16 जनवरी, 2024— हरियाणा चौकीदार (संशोधन) नियम, 2024.	59—60
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-I**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जनवरी, 2024

संख्या लैज. 32/2023.— दि हरियाणा सेटलमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2023 का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 9 जनवरी, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2023 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30**हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2023****हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017****को आगे संशोधित करने के लिए****अधिनियम**

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ii) में, “31 मार्च, 2017 तक” अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, “30 जून, 2017 तक” अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, “31 मार्च, 2017 तक” अंकों, शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, “30 जून, 2017 तक” अंक, शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 2 का संशोधन।

2017 के हरियाणा अधिनियम 35 की धारा 3 का संशोधन।

रितु गर्ग,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।